

**FORM FOR GIVING PRIOR INTIMATION OR SEEKING PREVIOUS  
SANCTION UNDER RULE 18(2) OF THE CCS(CONDUCT) RULES 1964  
TRANSACTION IN RESPECT OF IMMOVEABLE PROPERTY.**

अचल संपत्ति के संबंध में सीसीएस 18 के नियम 1964 नियम (आचरण)(2) के तहत पूर्व सूचना देने या पिछली स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रपत्र।

1.	Name & Designation नाम तथा पदनाम	:	
2.	Scale of pay & present pay वेतनमान एवं वर्तमान वेतन	:	
3.	Purpose of application sanction for transaction/prior intimation of transaction. लेनदेन के लिए आवेदन की मंजूरी/लेनदेन की पूर्व सूचना का उद्देश्य	:	
4.	Whether Property is being acquired, or disposed of property क्या संपत्ति अर्जित की जा रही है, या संपत्ति का निपटान किया जा रहा है	:	
5.	Probable date of acquisition or disposed of property संपत्ति के अधिग्रहण या निपटान की संभावित तिथि	:	
6.	Mode of acquisition/disposal अधिग्रहण/निपटान का तरीका :	:	
7.	a) Full details about location Viz. Municipal No. Street/Village/Taluk Distt. & State in which situated. क) स्थान के बारे में पूर्ण विवरण अर्थात् नगर संख्या गली / गाँव / तालुक जिला और राज्य जिसमें स्थित है	:	
	b) Description of the property in the case of cultivable land, dry or irrigated land. (ख) खेती योग्य भूमि, सूखी या सिंचित भूमि के मामले में संपत्ति का विवरण	:	
	c) Whether free hold or lease hold ग) क्या फ्री होल्ड या लीज होल्ड :	:	
	d) Whether the applicant's interest in the property is in full or part (In case of partial interest, the extent of such interests must be indicated).	:	

	डी) क्या संपत्ति में आवेदक का हित पूर्ण या आंशिक है (आंशिक ब्याज के मामले में, ऐसे हितों की सीमा का संकेत दिया जाना चाहिए) :		
	e) In case the transaction is not exclusively in the name of the Govt. servant particulars of ownership & share of each member. ई) यदि मामले में लेनदेन विशेष रूप से सरकारी नौकर/सेवक के नाम पर नहीं है तो प्रत्येक सदस्य के स्वामित्व और हिस्से का विवरण :	:	
8.	Sale/Purchase price of the property (Market value in the case of gifts). संपत्ति की बिक्री/खरीद मूल्य (उपहार के मामले में बाजार मूल्य):	:	
9.	In case of acquisition source or Sources form which financed/proposed to be financed. अधिग्रहण के स्रोत या स्रोत के मामले में जिसे वित्तपोषित/वित्तपोषित किया जाना प्रस्तावित है :	:	
10.	In the case of disposal of property was requisite sanction/intimation obtained/given for its acquisition (A copy of the sanction/acknowledgement should be attached). संपत्ति के निपटान के मामले में इसके अधिग्रहण के लिए अपेक्षित स्वीकृति/सूचना प्राप्त/दिया गया था (स्वीकृति/पावती की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए) :	:	
11.	(a) Name & address of the party with whom transaction was made. उस पार्टी का नाम और पता जिसके साथ (ए) लेनदेन किया गया था।	:	
	(b) Is the party related to the applicant? If so, state the relationship. क्या पार्टी आवेदक से संबंधित है (बी)? यदि हां, तो संबंध बताएं।	:	
	(c) Did the applicant have any dealing with the party in his official capacity at any time or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future? (ग) क्या आवेदक का अपनी आधिकारिक क्षमता	:	

	में किसी भी समय पार्टी के साथ कोई व्यवहार था या निकट भविष्य में आवेदक का उसके साथ कोई लेनदेन होने की संभावना है-?	
	(d)How was the transaction arranged? (Whether through any statutory body or a private agency through advertisement or through friends and relatives. Full particulars to be given). लेनदेन की व्यवस्था कैसे की गई थी (डी)? (चाहे किसी वैधानिक निकाय या निजी एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन के माध्यम से या दोस्तों और रिश्तेदारों के माध्यम से। पूरा विवरण दिया जाना है।	
12.	In case of acquisition by gift, whether sanction is also required under rule 13 of the CCS(Conduct) Rules 1964 उपहार द्वारा अधिग्रहण के मामले में, क्या सीसीएस के तहत 13 के नियम 1964 नियम (आचरण) मंजूरी की भी आवश्यकता है?	
13.	Any other relevant fact which the applicant may like to mention. कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य जिसका आवेदक उल्लेख करना चाहे।	

### DECLARATION

I \_\_\_\_\_ hereby declares that the particulars given above are true & request that I may be given permission to acquire/dispose of property as described above from/to the party whose name is mentioned in item No.11 above.

#### घोषणा

में एतद्वारा घोषणा करताकरती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं और अनुरोध करता हूं कि / में 11 निपटान की अनुमति दी जाए जिसका नाम ऊपर मद संख्या/को संपत्ति के अधिग्रहण/मुझे उस पार्टी से उल्लिखित है।

OR

I \_\_\_\_\_ hereby intimae the proposed acquisition, disposal of property by me as derailed above, I declare that the particulars given above are true.

Station: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Designation: \_\_\_\_\_

## अथवा

में \_\_\_\_\_ एतद्द्वारा उपरोक्त के रूप में मेरे द्वारा प्रस्तावित अधिग्रहण, संपत्ति के निपटान की सूचना देता हूं, मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

स्टेशन : \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_ पदनाम : \_\_\_\_\_

Note 1. In the above form different portions may be used according to requirement.

Note 2. Where previous sanction is asked for, the application should be submitted at least 30 days before proposed date of the transaction.

नोट 1. उपरोक्त रूप में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न भागों का उपयोग किया जा सकता है।

नोट 2. जहां पिछली मंजूरी मांगी गई है, लेनदेन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम दिन पहले आवेदन 30 जमा किया जाना चाहिए।